





**Sub District Registry Office, Danapur**

Token Number 9027

Reg. Year 2022

Serial Number 8770

Deed Number 8671

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Ajay Singh (Dir)						
Sig.	<u>3577 BC</u> 19-5-22						
Executant	Sanjeet Kumar						
Sig.	<u>Sanjeet Kumar</u> 19/05/2022						
Presented By	Vijay Kumar						
Sig.	<u>Vijay Kumar</u> 19/05/2022						
Executant	Vijay Kumar						
Sig.	<u>Vijay Kumar</u> 19/05/2022						
Identified By	Prafull Kumar						
Sig.	<u>Prafull Kumar</u> 19/5/22						



SCOR Ver.4

Powered by IL&FS Technologies Ltd.

Biometric Captured By 2802sop042

*Handwritten signature in red ink:*  
 आदेशानुसार उपरोक्त के विषय (शान्ति)  
 प्रमाण पत्रिका वर फाइल नमूना परमाणु  
 डाटा प्रमाण नमूना उपरोक्त आदेशानुसार  
 प्रमाण पत्रिका परमाणु परमाणु  
 आदेशानुसार  
 19/5/2022

Vijay Kumar  
19/05/2022

## (1) श्री विजय कुमार

PAN. BOWPK1117K Mob No. 9835422711

## (2) श्री संजीत कुमार

PAN. BHPPK4332N Mob No. 9470392119

दोनों के पिता कपिलदेव भगत, साकिन- टेकारी रोड, चौधरी टोला, पोस्ट- महेन्दु, थाना- सुलतानगंज, जिला- पटना, बिहार पिन कोड 800006, भारतीय नागरिक। जिन्हे आगे जमीन मालिक/मुखंड स्वामीगण के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादकगण, प्रशासकगण, हिबद्धगण उत्तराधिकारीगण को सम्मिलित होंगे) जिन्हे इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

मेसर्स आशीर्वाद इंजीकॉन प्रा० लि० जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या- U45200BR2012PTC019259 जिसका कार्यालय- सरोज रेसीडेन्सी, ए9 विवेकानन्द मार्ग, सोना अपार्टमेंट के सामने, पाटलीपुत्रा, कॉलोनी, पटना- 800013 द्वारा निदेशक श्री अजय सिंह पिता स्व० जग नारायण सिंह, निवासी- महल्ला रामकृष्णानगर, थाना- रामकृष्णानगर, जिला- पटना, भारतीय नागरिक, बिहार जिन्हे यहाँ पर "विकासकर्ता/भवन बनावटकर्ता कहा गया है, जिनके प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, समुदेशनी और/या हित उत्तराधिकारी भी सम्मिलित रहेंगे, जो द्वितीय पक्षकार हैं। मो० नं०-7033292801 PAN. AAKCA9641C

1- यह कि इस विकास एकरानामा के अनुसूची-1 में वर्णित जमीन प्रथम पक्षगण/जमीन मालिक का खरीदगी सम्पत्ति है। जिसे जमीन मालिक ने दिनांक 17-05-2022 ई० को नविस्ते श्री अविनाश कुमार पिता श्री राम प्रवेश सिंह साकिन- अकौना, थाना-धनरूआ,



Sanjeet Kumar  
18/05/2022



Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjeet Kumar  
18/05/2022

3570 DC  
Managing Director 18-5-22



जिला- पटना हाल साकिन- रामकृष्णानगर, थाना- रामकृष्णानगर, जिला- पटना से बैय खरीद किये है, जिसका बुक नं0-1, जिल्द नं0- 169, सी0 डी0 26, पेज नं0- 64 से 72, टोकन नं0- 8227, सिरियल नं0- 8576, वसीका नं0-8479 निबंधन कार्यालय दानापुर है। बैय खरीदगी के रोज से बिक्रेता उपर्युक्त भू-सम्पत्ति पर दखल कब्जे में होकर वो रहकर पूर्ण मालिक मुसतकिल रहते चले आते है ।

2- यह कि द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता बहुमंजिला इमारत आधुनिक तकनिक से निर्माण करने का कार्य करते है एवं जमीन मालिक के जमीन के पास अन्य जमीन मालिक से बहुमंजिला इमारत निर्माण करने के लिए विकास एकरारनामा के माध्यम से जमीन प्राप्त कर चुके है और अन्य जमीन खरीद किए है। जमीन मालिक भी अपना जमीन को विकास कर बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए द्वितीय पक्ष से बातचीत किया एवं प्रथम पक्ष के जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनाने को तैयार हुए एवं दोनो पक्षों में निम्न बातें तय हुई हैं ।

(क) द्वितीय पक्ष अनुसूची-1 में वर्णित प्रथम पक्ष के जमीन को विकास कर आवासीय बहुमंजिला इमारत उच्च कोटि के सामग्री का प्रयोग कर निर्माण करेंगे एवं कुल निर्मित भाग से प्रथम पक्ष जमीन मालिक को देने के बाद जो बचेगा द्वितीय पक्ष विकासकर्ता का होगा ।

(ख) यह कि भवन निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य सभी कार्यो में जो भी खर्च होगा वह द्वितीय पक्ष विकासकर्ता करेंगे । प्रथम पक्ष एक भी रूपया खर्च नहीं करेंगे ।

(3) यह कि जमीन मालिक की आंतरिक इच्छा है कि उपर वर्णित अपने भूखंड का रचनात्मक विकास के रूप में एक आवासीय बहुमंजिला भवन एवं उसपर आधुनिक तकनिक से पलैटों एवं कार पार्किंग का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के पास संपर्क किये और उनके साथ अपने उपर्युक्त भूखंड पर

Vijay Kumar  
18/05/2022

Sarjesh Kumar  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGINCON PVT. LTD.

3571 CC  
Managing Director 25.5.22



बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण करने की बात-चीत भवन के कुल बनावट में से पंचम तल पर 1600 वर्गफीट सुपर बिल्टअप एरिया के हिसाब से 1 फ्लैट दक्षिण पूरब के कोण पर जमीन मालिक वो बकिये विकासकर्ता के हिस्से के शर्तों पर सहमति देते हुए उनके साथ विकास एकरारनामा उक्त पक्षों के बीच निष्पादक सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्यता के हालत में अपने सभी तरह के नफा-नुकसान सोंच-समझकर बिना किसी के जोर दबाव के किये है । बहुमंजिला आवासीय भवन में जो भी बनावट होगा, उसमें फ्लैटों और कार पार्किंग स्पेशों के रूप में बनावट रहेगा ।

4- यह कि विकासकर्ता अनुसूची-1 में वर्णित भुखंड पर लिये गये निर्णय के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत है । इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्ता ही पूर्णतः वहन करेंगे ।

5- यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता भूखंड स्वामीगण के अनुमति से उक्त जमीन के विकास के लिए अविलम्ब ही भूकम्प रोधी बनाया जायेगा ।

6- यह कि विकासकर्ता द्वारा अच्छे आर्किटेक से नक्शा बनवायेंगे एवं जमीन मालिक को दिखलाकर एवं हस्ताक्षर लेकर एवं विकासकर्ता अपने हस्ताक्षर से उपर्युक्त भूकम्प रोधी नक्शा दानापुर निजामत नगर पालिका/पटना नगर निगम से अनुमति लेने के लिए बिहार अपार्टमेन्ट अधिनियम 2006 ई0 के प्रावधानों एवं नियमावली के अन्तर्गत जमा एवं दाखिल करेंगे । इसके अलावे जिस-जिस कामजातों, शपथ पत्रों और फार्मों पर हस्ताक्षर करने की जरूरत होगी, उसपर विकासकर्ता हस्ताक्षर करेंगे और आवश्यकता अनुसार प्राधिकार में नक्शा स्वीकृति हेतु एवं अन्य कार्य हेतु दाखिल एवं जमा करेंगे । इसमें जमीन मालिक को कोई एतराज नहीं है और न होगा । नक्शा स्वीकृति में जो भी खर्च आयेगा या होगा उसे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष वहन करेंगे ।

VITY KUMAR  
18/05/2022

Sanjeev Kumar  
18/05/2022

ASHWAD ENGINCON PVT. LTD.

3271 B

Managing Director 18-5-22



7- यह कि उपरोक्त भूखंड पर निर्मित बहुमंजिला आवासीय भवन का नाम आशीवाद IOB Glaxy Phase- II दोनो पक्षों के सहमति से रखा गया है ।

8- यह कि विकासकर्ता और जमीन मालिकगण निर्मित प्लैटों एवं कार पार्किंग का बंटवारा में दोनो पक्षों के कुल बनावट के हिस्से में दोनो के हिस्से के अनुरूप प्लैटों एवं कार पार्किंग के सहित भवन में स्थित भूमि में अविभाजित हिस्सा भी सम्मिलित रहेगा या होगा । इसके बाद ही दोनो पक्षों को अपने-अपने हिस्से के प्लैटों एवं कार पार्किंग स्पेशों के साथ साथ जमीन में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा का विभाजन लिखित रूप से कर लेंगे ।

9- यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमास्त निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् भूखंड स्वामीगण/प्रथम पक्ष को हिस्से का पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सौपेंगे ।

10- यह विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल परम निर्मित एरिया का भूखंड स्वामीगण प्रथम पक्ष के हिस्से को पूर्ण रूप से विकसित कर हर सुविधा के साथ सभी मंजिलों पर सौपेंगे तथा शेष परम निर्मित क्षेत्र विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष का सभी मंजिलों पर हिस्सा होगा ।

11- यह कि जमीन मालिक द्वारा विकासकर्ता को नक्शा स्वीकृत होने के दिन से 4 वर्ष 6 माह तक भवन निर्माण कार्य पूरा करने का समय दिया गया, अगर 4 वर्ष 6 माह में विकासकर्ता भवन का निर्माण किसी प्रकार के प्राकृति विपदा, भवन निर्माण सामग्री को समय पर उपलब्धता नहीं होने या सरकारी व्यवधान या नियम के कारण पूर्ण नहीं हो पाया तो भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतू 6 माह अतिरिक्त समय में विकासकर्ता निर्माण कार्य अवश्य पूरा कर देंगे एवं जबतक इमारत नहीं बनता है तबतक एग्रीमेन्ट के दिन से विकासकर्ता द्वारा भूखण्ड स्वामी को प्रति माह 10,000/- रुपये भुगतान करते रहेंगे जबतक जमीन मालिक को उनका हिस्सा का प्लैट पूरी तरह निर्माण कर सुपुर्क नहीं कर देते है।

Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjay Kumar  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGINCON PVT.LTD.  
357A  
Managing Director 18.5.22



12- यह कि भविष्य में यह बहुमंजिला भवन बनने के बाद अगर नगर परिषद दानापुर निजामत से पूर्व में बने बहुमंजिला भवन से उपर निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसमें भी दोनो पक्ष को उसी प्रकार हिस्सा होगा निर्माण में जो खर्च होगा उसका वहन विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष करेंगे ।

13- यह कि प्रथम पक्ष/जमीन मालिक तथा इनके उत्तराधिकारीगण निर्माण कार्य की अवधि में निर्माण कार्य का निरीक्षण दिन और रात में किसी भी समय कर सकते हैं ।

14- यह कि इस एकरारनामा के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना प्रारूप के अनुसार कुल परम निर्मित क्षेत्रों में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ छत, सिढ़ी, बालकोनी, एमनिटीज के साथ निर्मित फ्लैटों एवं कार पार्किंग का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्सा पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारीगण स्वतंत्र रूप से करेंगे ।

15- यह कि निर्माण के मार्ग में विकासकर्ता के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को अपने स्तर से पूर्ण करने का अधिकार होगा । जिससे कि प्रस्तावित योजना का कर््यान्वयन पूर्ण हो सके । निर्माण कार्य से लागत पूँजी का कुल समावेश विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने स्तरों से करेंगे या पूँजी मुहैया करने हेतु विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने हिस्से को आवंटनकर्ता एवं खरीदार या खरीदारगण से प्राप्त करेंगे तथा आवंटनकर्ता एवं खरीदार या खरीदारीगण को फ्लैट खरीदने एवं उपलब्ध कराने हेतु किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से आर्थिक ऋण लेने हेतु बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही कराने में मदद कर रकम प्राप्त करेंगे या विकासकर्ता के आवंटितों एवं खरीदार एवं खरीदारों द्वारा विकासकर्ता के हस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंग के उपर खुद ऋण प्राप्त कर विकासकर्ता को भुगतान कर देंगे । इस तरह विकासकर्ता को जो भी रकम अपने हिस्से के फ्लैटों एवं कार पार्किंग में अपने आवंटितों या खरीदार एवं

Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjay Kumar  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGINCON PVT. LTD.

3579 JK

Managing Director 18.5.22



खरीदारों से स्वयं भुगतान या ऋण द्वारा भुगतान होगा, उसे विकासकर्ता भवन निर्माण में खर्च करेगा। जिसके लिए आवश्यकतानुसार किसी भी आवंटियों एवं खरीदार/खरीदारों के पक्ष में बिक्रय एकरारनामा का लिखा पढ़ी करेंगे या आवश्यकतानुसार उसे निबंधन कार्यालय में निबंधित करेगा। अतएव विकासकर्ता किसी भी हालत में जमीन मालिक के मिलने वाले हिस्से के प्लैटों एवं कार पार्किंग के साथ साथ जमीन में अविभाजित अनुपातिक हिस्सा को किनही भी आवंटियों एवं खरीदार/खरीदारों के पक्ष में बिक्रय नहीं करेंगे साथ ही साथ अनुसूची-1 में वर्णित जमीन को सरकारी या गैरसरकारी संस्था से बंधक या बिक्रय नहीं करेंगे।

16- यह कि विकासकर्ता को उपरोक्त वर्णित भूमि के अगल वगल के जमीन मालिकों द्वारा बहुमंजिला भवन निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो वैसी स्थिति में विकासकर्ता अगल वगल के जमीन मालिकों से उनकी जमीन को विकास एकरारनामा पर लेकर या खरीद कर उक्त भूमि के साथ मिलाकर बहुमंजिला भवन निर्माण कई ब्लॉकों में करेंगे उसमें जमीन मालिक कोई आपत्ति एवं विरोध नहीं होगा।

17- यह कि सभी संबंधित व्यक्ति विशेष जैसे रचनाकार अभियंता, सर्वेयर, ठीकेदार आदि को नियुक्ति करने का अधिकार विकासकर्ता को होगा।

18- यह कि बहुमंजिला भवन योजना प्रारूप के अनुसार निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सिमेंट, औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा इत्यादि की खरीदगी अपने स्तर से विकासकर्ता करेंगे। अगर सरकार द्वारा उक्त भवन निर्माण सामग्रियों के उपर कोटा का निर्धारण निर्माण कार्य के समय हो जाएगा तो विकासकर्ता सामग्रियों को प्राप्त करने हेतु अपने हस्ताक्षर से संबंधित पदाधिकारियों या उचित कार्यालयों में आवेदन देगे एवं आवेदन के स्वीकृति के अनुसार भवन निर्माण सामग्रियों को प्राप्त करेंगे और उससे भवन निर्माण कार्य में लगायेगे।

Vijay Kumar  
16/05/2022

Sanjeet Kumar  
18/05/2022

ASIRVAD ENGLICON PVT. LTD.  
3670

Managing Director 18-5-22



19- यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने हिस्से का बिक्रय, एकरारनामा, निर्विवाद बिक्रय पत्र, आवंटन तथा किरायानामा आदि अभिलेखों के निबंधन हेतु अपने आवंटियों खरीदार/खरीदारों से वांछित राशि लेकर उक्त अभिलेखों को निष्पादन करेंगे ।

20- यह कि जब कभी विकासकर्ता को भुखंड स्वामीगण की किसी वसिका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी तब उनको साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद फरोक्त के लिए स्वामीगणत्व हस्ताक्षर के मुताबिक ही आचरण करेंगे। उसी प्रकार जमीन मालिक भी अपने हिस्से पर पड़ने वाले फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र का पूर्ण स्वामीगण होंगे तथा हस्तान्तरण के समय अगर आवश्यक हुआ तब विकासकर्ता निष्पादन के समय हस्ताक्षर कर देंगे ।

21- यह कि भुखंड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेगा । द्वितीय पक्ष को कार्यालयों में उपयोग हेतु फोटो प्रति दिया जायेगा । जरूरत पड़ने पर मूल दस्तावेज को प्रथम पक्ष विकासकर्ता को कार्यालयों में प्रस्तुत करने हेतु सुपुर्द करेगी ।

22- यह कि प्रस्तावित योजना के तहत भुखंड पर निर्माण कार्य प्रारूप की स्वीकृति पी0 एम0 सी0 के द्वारा होने के बाद बिहार म्युनिसिपलटी/म्युनिसिपल एक्ट 2007 के प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत निर्माण किया जायेगा एवं प्रस्तावित योजना से ज्यादा एरिया का निर्माण कार्य किया जायेगा तो उसके वियद्व दंड राशि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा । यदि सरकारी द्वारा उक्त अपार्टमेंट का जो भी क्षेत्र अधिग्रहित किया जायेगा उसका मुआवजा राशि में से जमीन मालिक और विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष का उपर वर्णित हिस्से के अनुसार हिस्सा होगा और दोनो पक्ष अपने-अपने स्तर से प्राप्त करेंगे ।

23- यह कि उभय के बीच यह भी सहमति प्रदान की गई कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च, स्टाम्प

NITY KUMAR

18/05/2022

Sanjeev Kumar  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGINEERS PVT. LTD.  
307/1 B

Managing Director 18-5-22



ड्यूटी खर्च एवं निबंधन फीस एवं अन्य तरह का फीस का वहन दोनो एक्कारों के खरीदार/खरीदारगण अपने स्तर से करेंगे ।

24- यह कि बहुमंजिला भवन में विद्युत कनेक्शन की जमानत राशि हर फ्लैट में बिजली कनेक्शन हेतु जमा होगा । जेनरेटर का लाईन आवश्यकतानुसार वाट का होगा । जिसका कनेक्शन भवन के सभी जगहों पर होगा ।

25- यह कि कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्ता और जमीन मालिक एवं भवन के फ्लैटों के सभी सदस्यों एवं व्यक्तियों के द्वारा एक एसोसियेशन बनाया जायेगा । इस बहुमंजिला आवासीय भवन के फ्लैटों में रहने वाले सभी सदस्य इस एसोसियेशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपने स्तर से खर्च वहन का बहुमंजिला आवासीय भवन के सभी हिस्सों को रख-रखाव, देखभाल, सफाई एवं रंगाई पोताई आनर्स एसोसिएशन के माध्यम से करेंगे ।

26- यह कि बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण कार्य के दौरान घटना-दुर्घटना या सरकारी विभागों के दण्ड का जवाबदेही विकासकर्ता का होगा । जिसकी जवाबदेही जमीन मालिक पर नहीं होगी ।

27- यह कि विकास कार्य एकरारनामा के अनुसार बहुमंजिला भवन के पार्किंग एरिया में जमीन मालिक का उपर वर्णित के अनुसार हिस्सेदारी होगा, इसी तरह विकासकर्ता का भी पार्किंग एरिया में उपर वर्णित के अनुसार हिस्सेदारी होगा । जिसे जमीन मालिक एवं विकासकर्ता सह पर स्थित पार्किंग एरिया में मार्किंग किया जायेगा जिसका जिक्र जमीन मालिक और विकासकर्ता के बीच हिस्सों के संबंध में किये गये बंटवारा में उल्लेख किया जायेगा ।

28- यह कि कीमत के रूप में विकासकर्ता ये स्वीकार करते हैं कि जमीन मालिक को विकास एकरारनामा में वर्णित अनुसार में फ्लैटों के सुविधाओं और पार्किंग स्पेशों में हिस्से

Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjeev Kumar  
18/5/2022

ASHRWAJ ENGINCON PVT. LTD.  
3577  
Managing Director 18.5.22



देंगे। जिन्हे उपरोक्त वर्णित भूमि पर भवन का निर्माण कर खास दाज और हिस्से में मिलेगा। जिसके जमीन मालिक निर्विवाद रूप से पूर्ण स्वामीगण, स्वत्वाधिकारीगण, सर्वाधिकारीगण और दखलकारगण होंगे, जिसे वे जिस प्रकार से चाहे और पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व से उसे किन्हीं अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, संस्था फर्म और अन्य वगैरह को इस विकास एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप जिस तरह या जिस तरीके से अनिवार्य होगा उसे हस्तान्तरित करेंगे और अपने हिस्से के पूर्ण रूप से बना हुआ प्लैट विकासकर्ता का क्षेत्र कहा जायेगा। इस तरह जमीन मालिक और विकासकर्ता बिहार अपार्टमेन्ट ऑनरशीप अधिनियम 2006 की धारा 5 वगैरह के अन्तर्गत अपने-अपने पूर्णरूपेण निर्विवाद रूप से स्वामीगण, मालिकगण, अधिकारी, स्वत्वाधिकारी, सर्वाधिकारी और दखलकार होंगे और उसे विकासकर्ता जिस किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों, संस्था फर्म और अन्य वगैरह को जिस तरीके से भी चाहे बिक्रय या पट्टा पर तथा किसी अन्य तरह से हस्तान्तरित करेंगे और पूर्ण रूपेण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

29- यह कि अपार्टमेन्ट ऑनरशीप अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विकासकर्ता या उनके खरीदार अपने हिस्से का बनावट के साथ-साथ उपरोक्त वर्णित भूखण्ड में अनुपातित भू-भाग से निर्विवाद स्वामीगण पूर्ण रूपेण होंगे इससे जमीन मालिक तथा इस सभी के उत्तराधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधार पर विरोध, आपत्ति तथा दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए जमीन मालिक विकासकर्ता को स्थाई पावर ऑफ एटर्नी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार विकासकर्ता को उपरोक्त भूखण्ड पर सभी तरह का कार्य करने या विकास करने नक्शा बनाने भवन निर्माण करने या उसको बेचने का शान्तिपूर्ण अधिकार होगा।



Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjay Kumar  
18/05/2022

ASHIWAJ ENGINCON PVT. LTD.  
BTLA GC  
Managing Director 18-5-22

30- यह कि जमीन मालिक यह घोषणा करते हैं कि जमीन हर तरह के ऋण भार से मुक्त है । जमीन मालिक यह भी आश्वासन दिलाते हैं कि जब तक बहुमंजिला आवासीय भवन पूर्ण रूप से बन नहीं जाता है तबतक यह सम्पत्ति हर तरह के ऋणभार से मुक्त रहेंगे ।

31- यह कि विकास एकरारनामा में लिखी गई शर्तों में किसी तरह का परिवर्तन या संशोधन जमीन मालिक एवं विकासकर्तागण की लिखित सहमति से किया जायेगा और दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष इस विकास एकरारनामा में लिखी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे ।

32- यह कि भवन निर्माण के दौरान सभी प्रकार का निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीन इत्यादी जो निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लाया जाएगा वह सब उच्च कोटी का होगा उसकी सारी जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी तथा इन सभी उपकरणों का रख-रखाव, चोरी इत्यादि से बचाव भी विकासकर्ता की जिम्मेवारी होगी । किसी भी तरह के नुकसान के लिए जमीन मालिक उत्तरदायी नहीं होंगे ।

33- यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद एकरारनामा के अनुसार उत्पन्न होता है तो भू-स्वामीगण एवं विकासकर्ता के बीच निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारती आरबिट्रेशन एक्ट तथा संशोधित नियम के तहत किया जायेगा ।

यह कि अगर उक्त जमीन पर आज या भविष्य में किसी तरह का वाद-विवाद उत्पन्न होगा या किसी व्यक्ति द्वारा दावा-दाबी किया जायेगा तो उसकी सारी जबाबदेही जमीन मालिक की है वो होगी ।

### अनुसूची

भूमि का विवरण जिसपर आवासीय बहुमंजिला भवन का निर्माण के रूप में विकास होगा ।

मवाजी 1 कड्डा (एक कड्डा) यानि 3.125 डी0 भूमि आवासीय परती सहायक सड़क जिसका अधिकार कास्त रैयती कायमी नगदी वाके मौजा-पैनाल, राखस हल्का-पैनाल, परगना- मनेर, थाना-बिहटा



Nitya Kumar  
18/05/2022

Sanjay Kumar  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.  
37571 B

Managing Director 18.5.22

सब रजिस्ट्री- दानापुर, सदर रजिस्ट्री वो जिला- पटना, जिसका थाना नं०- 70, तौजी सामिलात, अंचल- बिहटा । जमाबन्दी नं०- 683A/XVI पर पूर्व बिक्रेता का नाम दर्ज है।

खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	मूल्य
2038	8650	1.5625 डी० या 10 धूर	2,50,000/-

“ चौ ह दी ”

उत्तर : आशीवाद इंजीकॉन प्रा० लि०

दक्षिण : सर्वे प्लॉट नं०- 8650 वो 8649

पूरब : प्रफुल्ल कुमार ।

पश्चिम: इच्छा पाण्डेय ।

खाता नं०	प्लॉट नं०	एराजी	मूल्य
2038	8649	1.5625 डी० या 10 धूर	2,50,000/-

“ चौ ह दी ”

उत्तर : आशीवाद इंजीकॉन प्रा० लि०

दक्षिण : सर्वे प्लॉट नं०- 8650 वो 8649

पूरब : प्रफुल्ल कुमार ।

पश्चिम: इच्छा पाण्डेय ।

जमीन का सरकारी कीमत अंकेन मो० 5,00,000/- रूपया (पांच लाख रूपया) मात्र ।

### अनुसूची-2

- 1- स्ट्रक्चर : आर०सी०सी० फेम स्ट्रक्चर
- 2- सिविल वर्क : प्रथम श्रेणी का ईट वर्क प्रिज्म का लफार्ज सिमेट मोर्टर के साथ ।
- 3- छत : आर०सी०सी०
- 4- फर्श : टाइल्स (KAJARIA)



Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjiv Kumar  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGICON PVT.LTD.  
31777  
Managing Director 18.5.22

- 5- प्लास्टर : सिमेंट मोर्टार 1:6 सिलिंग 1:4
- 6- दरवाजा : सखुआ लकड़ी का चौखट एवं दरवाजा 30 ग्रिन प्लाई एम0एम0 मोटा फ़ैक्ट्री से निर्मित प्लस डोर।
- 7- खिड़की : अलुमुनियम या चौखट फ़ेम अलुमुनियम का पल्ला शीशा लागकर।
- 8- रसोई घर : मार्बल का वर्किंग पलैट फार्म, जोजाइक सिंक तथा दिवाल में सफेद गलैज्ड टाईल्स और डायनिंग रूम में भी एक वास बेसिन रहेगा।
- 9- बाथरूम : दिवाल में 7 फीट ग्लेज टाईल्स तथा सतह में मार्बल या इसपटक फ्लोरिंग साथ ही जल आपूर्ति आर्शीवाद फिटिंग, चिनी मिट्टी का सफेद हिन्दवेयर, पैन फिटिंग एवं बेसिन।
- 10- विधुत वायरिंग: कॉन्सिल पी0 बी0 सी0 कौन्डयूट वायरिंग (Havells) सहित आई एस आई मार्का का फिटिंग, स्वीच के साथ।
- 11- दिवाल फिनिसिंग : अन्दर के प्लास्टर ऑफ पेरिस।
- 12- टी0 भी0 प्वाईट : सभी पलैटों में एक प्वाईट।
- 13- सिवेज : सिवेज डिजाईन के अनुसार उपर्युक्त व्यवस्था के साथ।
- 14- जेनरेटर : जलापूर्ति तथा कॉमन क्षेत्र के साथ पूर पलैट के लिए 300 वाट।
- 15- समरसिवुल पम्प: एक
- 16- लिफ्ट : एक (आवश्यकतानुसार)
- 17- छड़ : टाटा का लगान।
- 18- ईट : 1 नम्बर का
- 19- प्लम्बर : आर्शीवाद
- 20-सिट- हिन्द वेयर
- 21- बेसिन : हिन्द वेयर।

Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjay Kossan  
18/05/2022

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

307105

Managing Director 18-5-22



भूखंड स्वामीगण प्रथम पक्ष विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत है तथा वादा करते हैं कि मिलजुलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।

इस वास्ते भूखंड स्वामीगण/प्रथम पक्ष और विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष ने इस विकास एकरारनामा में लिखी गई बातों एवं शर्तों को पढ़कर और पढ़वाकर समझते हुए सोंच विचार कर बिना किन्ही के दबाव एवं धमकाव तथा किसी तरह की आपत्ति के एक-दूसरे के पक्ष में लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे।

गवाहगण का हस्ताक्षर

1. Harsh Kumar  
18/5/22  
प्रफुल्ल कुमार  
पिता-श्री धर्मदेव भगत  
भानी-मुरलीगंज  
जिलाभदोपुरा, बिहार  
18-5-22

2. Sachin Tej  
S/o. Pyare Lal  
Sorangpur, New Bypass  
Patna - 27.  
12/05/2022

भूखंड स्वामीगण का हस्ताक्षर

Vijay Kumar  
18/05/2022  
Sanjeet Kumar  
18/05/2022

विकाकर्ता का हस्ताक्षर

ASHIRWAD ENGICON PVT. LTD.

Sanjeet Kumar  
Managing Director 18-5-22

प्रारूपकर्ता

Ramesh Kumar  
Advocate  
Eno. 18/05/2022



Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjeet Kumar  
18/05/2022



Nity Kymn  
18/05/2022

Sonjastkasan  
18/05/2022

ASHIRWAD ENOXCON PVT. LTD.  
30/4/22  
Managing Director 18.5.22



श्रीश्रीगुण  
19/5/2022

### Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped ( or exempted from or does not require stamp duty ) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 10000/-

Addl. Stamp duty paid under Municipal Act Rs. 0/-

Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	0/-
Amt. paid through Bank Challan	Rs.	30500/-

#### Registration Fee

FEE PAID	A1	0	C	0	H1b	0	K1a	0	Lii	0
	A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0
	A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
	A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0
	B	0	H1a	0	J2	0	Li	0		0
<b>TOTAL- 1000</b>										

#### LLR + Proc Fee Service Charge

LLR	0	
Proc. Fee	0	500
Total	0	


Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 1500

Date: 19/05/2022

  
Registering Officer  
Danapur

### Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Danapur on Thursday, 19th May 2022 by Vijay Kumar Kapildeo Bhagat by profession Others. Status - Executant

  
19/05/2022

Signature/L.T.I. of Presentant

Date: 19/05/2022

  
Registering Officer  
Danapur

### Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Prfull Kumar' age '37' Sex 'M', 'Dharmdev Bhagat', resident of 'Ward No-9, professor Colony, muraliganj, madhepura'. ), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 19/05/2022

  
Registering Officer  
Danapur

### Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Danapur in Book 1 Volume No. 172 on pages on 472 -488, for the year 2022 and stored in CD volume No. CD-27 year 2022 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 19/05/2022

  
Registering Officer  
Danapur

Token No. : 9027 Year : 2022 S.No. : 8770 SCORE Ver.4.1

Deed No. : d No. : 8671



18-5-22 Ag. Bihda  
8099

11:29



# INDIA NON JUDICIAL Government of Bihar e-Stamp

Certificate No. : IN-BR33078209475601U  
 Certificate Issued Date : 12-May-2022 01:35 PM  
 Account Reference : NONACC (CB)/ brpccbk09/ DANAPUR/ BR-PAT/ DNP  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-BRBRPCCBK0948954711364784U  
 Purchased by : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD  
 Description of Document : Not Applicable  
 Property Description : Not Applicable  
 Consideration Price (Rs.) : 0 (Zero)  
 First Party : Not Applicable  
 Second Party : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD  
 Stamp Duty Paid By : ASHIRWAD ENGICON PVT LTD  
 Stamp Duty Paid (Rs.) : 10,000 (Ten Thousand only)  
 Reg. fee (Rs.) : 20,000 (Twenty Thousand only)  
 LLR & P Fee (Rs.) : 0 (Zero)  
 Miscellaneous Fee (Rs.) : 0 (Zero)  
 Discore SC (Rs.) : 500 (Five Hundred only)  
 Total Amount (Rs.) : 30,500 (Thirty Thousand Five Hundred only)



Vijay Kumar  
18/05/2022

Sanjay kumar  
18/05/2022

9027



ASHIRWAD ENGICON PVT LTD.  
31712

Managing Director 18-5-22

1915

Do not write or type below this line

JD 0002810950

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

 **Warning** 

“The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or at any Authorised collection center address displayed at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) free of cost.”

“Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence.”

“This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features.”




 भारत सरकार  
 Government of India


 प्रफुल्ल कुमार  
 Prafull Kumar  
 जन्म तिथि/ DOB: 12/09/1987  
 पुरुष / MALE



8405 2799 6482

मेरा आधार, मेरी पहचान


 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
 Unique Identification Authority of India

पता:  
 C/C धर्मदेव भगत, वॉर्ड न - 9  
 प्रोफेसर कॉलोनी, मुरलीगंज,  
 मुरलीगंज, मधेपुरा,  
 बिहार - 852122

**Address:**  
 S/O Dharmdeo Bhagat Ward No  
 - 9 Professor Colony, Muraliganj,  
 Murliganj, Madhepura  
 Bihar - 852122

8405 2799 6482





help@uidai.gov.in      www.uidai.gov.in

78-117

*Prafull Kumar*  
18/5/22

